

Fourth Lecture organized under Ewing lecture Series

The fourth lecture of the current academic session under Ewing Lecture Series was organized by the Physics Society on 19th October 2023. Dr. T. P. Yadav, Associate Professor, Department of Physics, University of Allahabad delivered this lecture. Head of the department Dr. A. K. Shukla welcomed the speaker in the beginning. Convenor of the Physics Society Dr. A. K. Pathak shared about the activities organized by the Physics Society. Dr. P. K. Priya introduced the speaker. Dr. Yadav discussed about hydrogen energy as an important alternative to traditional energy sources and highlighted India's long-term low-carbon development strategy to achieve net zero by 2070. UG and PG students were present in large number and actively participated in the program. Faculty members of the department were also present. Dr. U. K. Yadav proposed the vote of thanks.



2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य
 प्रयागराज। ईसीसी के भौतिक विज्ञान विभाग में लेक्चर सीरीज का आयोजन हुआ। डॉ. टीपी यादव ने हाइड्रोजन ऊर्जा: विकास और पदार्थ की संभावनाएँ विषय पर व्याख्यान दिया। डॉ. एके शुक्ल, डॉ. एके पाठक, डॉ. पीके प्रिय ने अनुभव साझा किए। डॉ. टीपी यादव ने बताया कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। कार्यक्रम में 150 छात्रों ने हिस्सा लिया।

हाइड्रोजन पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का एक महत्वपूर्ण विकल्प



वॉलेंट ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ टीपी यादव ने हाइड्रोजन ऊर्जा: विकास और पदार्थ की संभावनाएँ विषय पर व्याख्यान में कहा कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। इस दिशा में हाइड्रोजन ऊर्जा को स्वच्छ, हरित और भविष्य की ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

गुरुवार को फिजिक्स सोसायटी द्वारा इविंग लेक्चर सीरीज के अंतर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र का चतुर्थ व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान के आरंभ में विभागाध्यक्ष डॉ. ए.के.शुक्ल ने वक्ता का स्वागत किया। डॉ. ए.के.पाठक ने फिजिक्स सोसायटी द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। डॉ. पी.के.प्रिय ने वक्ता का परिचय दिया। व्याख्यान में बोलेसरी और एमएससी के लगभग 150 छात्रों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और वक्ता से विचार विमर्श भी किया। इस दौरान विभाग के सभी संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। अंत में डॉ. यू.के.यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

हाइड्रोजन पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का एक महत्वपूर्ण विकल्प : टीपी यादव



प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ टीपी यादव ने हाइड्रोजन ऊर्जा: विकास और पदार्थ की संभावनाएँ विषय पर व्याख्यान में कहा कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है।

वर्तमान शैक्षणिक सत्र का चतुर्थ व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान के आरंभ में विभागाध्यक्ष डॉ. ए.के.शुक्ल ने वक्ता का स्वागत किया। डॉ. ए.के.पाठक ने फिजिक्स सोसायटी द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। डॉ. पी.के.प्रिय ने वक्ता का परिचय दिया। व्याख्यान में बोलेसरी और एमएससी के लगभग 150 छात्रों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और वक्ता से विचार विमर्श भी किया। इस दौरान विभाग के सभी संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। अंत में डॉ. यू.के.यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।



ईसीसी भौतिकी विभाग के कार्यक्रम में बोलेसरी टीपी यादव। अमर उजवाला

ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सशक्त विकल्प है हाइड्रोजन

प्रयागराज। ईसीसी में फिजिक्स सोसायटी की ओर से गुरुवारवार को व्याख्यान का आयोजन किया गया। इविंग के भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. टीपी यादव ने 'हाइड्रोजन ऊर्जा: विकास और पदार्थ की संभावनाएँ' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। इस दिशा में हाइड्रोजन ऊर्जा को स्वच्छ, हरित और भविष्य की ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉ. एके शुक्ल, डॉ. एके पाठक, डॉ. पीके प्रिय आदि मौजूद रहे। डॉ. यूके यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यूट्यू